आयुर्वेद प्रश्नमाला



डा. अजय कुमार

डा. टीना सिंघल

आयुर्वेद प्रश्नमाला

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओ हेतु 3000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नो का संग्रह

डा. अजय कुमार

प्रवक्ता, कायचिकित्सा विभाग
राजकीय स्नात्तकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
वाराणसी

डा. टीना सिंघल

प्रवक्ता, रचना शारीर विभाग
राजकीय स्नात्तकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
वाराणसी


प्रथम संस्करण, 2018

&%ys[kd ifjp; %&



डॉ अजय कुमार, वर्तमान में राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय , वाराणसी के कायचिकित्सा एवं पंचकर्म विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत है। इन्होंने आयुर्वेदाचार्य की शिक्षा इसी महाविद्यालय से 2005 में पूरी की तथा इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कायचिकित्सा विषय मे एम. डी. और पी.एच. डी. की पढ़ाई पूरी की । इनका मुख्य कार्यक्षेत्र हाइपरटेंशन, कार्डियो-रेस्पिरेटरी और मधुमेह रहा है । इसके पूर्व में इनकी दो पुस्तके "हाइपरटेंशन इन आयुर्वेद" और "मेल इनफर्टिलिटी एंड मैनेजमेंट" पब्लिश हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में लगभग 20 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके है । इन्होंने लगभग 30 से अधिक सेमिनारो में व्याख्यान प्रस्तुत किया है, तथा कई सेमिनार भी आयोजित करा चुके है। हिमालय हर्बल हेल्थ केअर द्वारा "जीवक अवार्ड" तथा चरक फार्मा द्वारा "आयुरमेधा अवार्ड" से भी सम्मानित किया जा चुका है। सन 2018 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के रचना शारीर विभाग एवं बैकुंठी आयुष रिसर्च एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी , लखनऊ के संयुक्त कॉन्फ्रेंस में डॉ अजय कुमार को आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए "आयुष गौरव" सम्मान से सम्मानित किया गया।

लेखक द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तके . . .



PAPER SET-1

1. मानसो ज्ञानविज्ञान धैर्यस्मृति समाधिभि किसने कहा है

A.वागभट B.चरक

C.सुश्रुत D.चक्रपाणि

2. शरीर, इन्द्रिय, मन व आत्मा के संयोग को क्या कहतें है।

A.त्रिदण्ड B. आयु

C.त्रिसूत्र D.All

3. किसको 'उग्रतपा' कहा गया है

A.पुनर्वसु B. अग्निवेश

C.चरक D. भरद्वाज

4. प्रथम सम्भाषा परिषद मे कौन आत्रेय नही थे

A. पुनर्वसु आत्रेय B. भिक्षु आत्रेय

C. कृष्ण आत्रेय D. All

5.सस्नेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रवमम्लं सरं कटु किसका गुण है

A.वात B.पित्त

C.कफ D. All

6. विपरीत गुणैर्देश मात्रा कालोपपादितैः क्या है

A. साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र

B. असाध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र

C. याप्य रोगों का चिकित्सा सूत्र

D. कष्ठसाध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र

7. वनस्पति को सुश्रुत ने ' क्या ' कहा है

A.वीरुध B. वृक्ष

C.गुल्म D. None

8. अहितमनुपसेवमानस्य क्या है

A. ऋतुचर्या B. आहार

C. संस्कार D. स्वप्न

9. चेतःसमवायि किस इन्द्रिय के लिये है

A. चक्षु B. स्पर्श

C. घ्राण D. रसन

10. राजयक्ष्मा किस मार्ग की व्याधि है

A. शाखा B. मर्म

C. कोष्ठ D. सभी

11. प्रयोगज्ञानविज्ञानसिद्धिसिद्धा सुखप्रदा

A. प्रतिरूपक B. छद्मचर

C. जीविताभिसर D. कोई नहीं

12. पुनरहितेभ्योऽर्थेभ्यो मनोनिग्रहः

A. संस्कार B.सत्वावजय

C. सत्व D. कोई नहीं

13. चरक सूत्र 11 का उपदेश किसने दिया है

A. आत्रेय B. पुनर्वसु आत्रेय

C. भिक्षु आत्रेय D. कृष्ण आत्रेय

14. 21 से 24 अध्याय तक चरक ने किस चतुष्क मे रखा है

A. निर्देश B. कल्पना

C.योजना D. भेषज

15. मात्राकालाश्रया युक्तिः सिद्धियुक्तौ प्रतिष्ठिता। – का सन्दर्भ

A. च.सू.1 B. च.सू.2

C. च.सू.14 D. च.सू.3

16. गौमांस रस और खट्टे अनार रस से सिद्ध यवागू होती है

A. भेदिनी
B. विषमज्वरघ्न
C. वृष्य
D. विषनाशक

17. अपामार्गतण्डुलीय अध्याय में कितने यवागुओं का वर्णन किया गया है

A.26
B.28
C.32
D.34

18. शिरीषलामज्जकहेमलोध्रै है

A. दुर्गंधहर
B. विषहर
C. शिरःशूल नाशक
D. स्वेद हर

19. आहारमात्रा, 'किसकी ' अपेक्षा करने वाली होती है

A.रोग बल
B.रोगी बल
C.काल बल
D. अग्नि बल

20. किस रस को छठी कषाय योनि नहीं कहा गया है।

A. मधुर
B. अम्ल
C. तिक्त
D. लवण

21.. चतुविध प्रमाणो से किसकी सिद्धि होती है।

A. सत् असत् की
B. पुनर्भव की
C. दोनो की
D. कोई नहीं

22.. अनुबन्ध चतुष्ट्य मे नही है–

A. प्रयोजन
B. अभिधेय,
C. सम्बन्ध
D. अधिकार

23. उपनिषदो मे कौन ऐषणा नही है

A. धर्मेषणा
B. वितैषणा
C. पूत्रैषणा
D. लोकैषणा

24. दिव्य उदक मे निम्न गुण होते हैं Except

A.शीत, B. शिवं

C.शुचि, D.गुरु

25. पुनरौषधाहार द्रव्याणां योजना कौन सी चिकित्सा है

A. दैवव्यपाश्रय B.युक्तिव्यपाश्रय

C. सत्वावजय D. कोई नही

26. वृद्ध वाग्भट् ने किस रोग को कर्मज रोग माना है

A.सुखसाध्य B.कष्टसाध्य

C.याप्य D.प्रत्याख्येय

27. सर्व प्रधान ज्ञानेन्द्रिय कौन है

A.रसना B. घ्राण

C.त्वक् D. चक्षु

28. लघु पन्चमूल किसमे होता है।

A. शूलनाशक यवागू B. शोथहर यवागू

C. दोनो D. कोई नही

29. पन्चावयव युक्त वाक्य का प्रयोग किस प्रमाण मे करते है

A. प्रत्यक्ष B. अनुमान

C. उपमान D. प्रमाण

30.धर्मार्थकाम मोक्षाणांऽनारोग्यंमूलमुतमम का सन्दर्भ

A. चरक संहिता B. सुश्रुत संहिता

C. भेल संहिता D. कोई नही

31.निम्न मे अष्टदेवता नही है

A.धृति B.स्मृति

C.धी D.मेधा

32. सांख्यकारिका के रचयिता कौन है

A. इश्वरकृष्ण
B. व्यास
C. कणाद
D. गौतम

33. पिण्डिकोद्वेष्ठन किसका लक्षण है

A. मूत्र वेगावरोध
B. पुरीष वेगावरोध
C. शुक्र वेगावरोध
D. क्षवथु वेगावरोध

34.त्रिदण्ड मे नही है

A.सत्व
B.आत्मा
C.इन्द्रिय
D.शरीर

35.खरदुग्ध है

A.उन्माद नाशक
B.तिक्त रसयुक्त
C.पथ्य
D. कोई नहीं

36. मेधा क्वचित क्वचित कर्मण्यमेधा किसकी सिद्धि मे

A. आप्तापदेश
B. उपमान
C. प्रत्यक्ष
D. कोई नहीं

37.विषनाशक यवागू है

A.गोमांस सिद्ध
B.उपोदिका सिद्ध
C.सोमराजी सिद्ध
D.तक सिद्ध

38.गोधा मांस से सिद्ध यवागू होती है

A.विषमज्वर नाशक
B.क्षुधा नाशक
C.पिपासा नाशक
D.विष नाशक

39. दातौन की मोटाई कितनी होनी चाहिए

A. अंगूठा
B. अंगूठा प्रथमा
C. कनिष्ठिका
D. कोई नहीं

40. अल्पेन हेतुनामाशुप्रवर्तकम किस रोग का लक्षण है

A.सुखसाध्य B.कष्टसाध्य

C.याप्य D.प्रत्याख्येय

41. किस ऋतु मे क्षार व दही का सेवन, दिवाशयन तथा पूर्वी वायु का सेवन नहीं करना चाहिए

A.शरद B.वसन्त

C.ग्रीष्म D.हेमन्त

42. यदि कण्ठगत दोष हो तो किससे धूम्रपान करना चाहिए

A.नासिका B. मुख

C.नेत्र D. All

43. Hikka like treatment in

A. Kshawathu vegaavrodh B. Udgar vega avrodh

C. Jrimbhavega avrodh D. Vaman vega avrodh

44. तस्मात शास्त्रेऽर्थ विज्ञाने प्रवृतौ कर्म दर्शने is feature of

A.Raja yogya vaidhya B.Pranabhisar vaidhya

C.Sidhasadhita vaidhya D.All

45. नित्यानुशायिनं रोगं

A. Yapya B. Sukh sadhya

C. Kricha sadhya D. Pratyakhyeya

46. arth dyaya(अर्थद्वय) is

A.Aarogya+ indriya vijaya

B.Indriya vijaya+kama

C.Both

D.None

47. Match the following

a-Centella asiatica $-Udsalib
b-Vitex negundo %-Jyotishmati
c-Peonia emodi &-Aranya kulathika
d-Cassia absus @-Sinduwar

A. a-&,b-$,c-@,d-% B. a-@,b-&,c-$,d-%
C. a-&,b-@,c-$,d-% D. a-%,b-@,c-$,d-&

48. अष्टमैथुन का वर्णन कहा है

A. चरक B. याज्ञवल्क्य स्मृति
C. चक्रदत D. मनुस्मृति

49. युक्ति.......... सा ज्ञेया............ साध्यतें यया

A. त्रिवर्गा त्रिकाला B. त्रिकाला त्रिदोषा
C. त्रिदोषा त्रिकाला D. त्रिकाला त्रिवर्गा

50. Maran(मारण) is type of

A.Bhanga B.Ahifen
C.Visha D.Katuvika

51. पन्चकषायकल्पनाएं होती है

A..'यथोतरं बलावहा B.'यथापूर्व बलावहा
C.Both D.None

52. शिरोविरेचन धूम हेतु किसको छोड़कर गन्धवर्ग की औषधियों का प्रयोग करते हैं

A.कुष्ठ अगुरु
B. कुष्ठ व तगर
C.तुवरक
D.All

53. Match the following

a-Delbergia lanceolaria $-Tikshna gandha
b-Kshatra vriksha %-Leguminosae
c-Horsh redish tree &-Uddaklak
d-Boraginaceae @-Sterculiaceae

A. a-&,b-$,c-@,d-% B. a-@,b-&,c-$,d-%

C. a-&,b-@,c-$,d-% D. a-%,b-@,c-$,d-&

54. Which is true?

a-There are two types of tagar.
b-Erandmulam vatharanam (charak sutra 25)
c-Family of sugandha is Compositae
d-Nadeya is Arjuna.

A.a,b,c B.b,c

C.a,c D.all

55. Highest protein content in which milk

A.Cow B.Buffalow

C.Sheep D.Goat

56. आरग्वधीय अध्याय में सिद्धतम् चूर्ण व प्रदेहों का वर्णन किया गया ह

A. 28 B. 30

C. 32 D. 34

57. द्रव्यादापोथिताये तत्पुनर्निशि संस्थितात् क्या है

A.क्वाथ B.शीत

C.फाण्ट D.All

58. निरन्तर अभ्यास करने योग्य द्रव्य नही है

A.यव B.घृत

C. जांगल मांस D.दही

59. रसायनं सुवर्णघ्नं लोहमार्दवकारकम कौन अन्जन है

A. पुष्पान्जन B. श्रोतोन्जन

C. रसांजन D. नीलान्जन

60.तीक्ष्ण वीर्य औषधि की मात्रा – चक्रपाणि

A.1 कर्ष B.2 कर्ष

C.3 कर्ष D.4 कर्ष

61.धामार्गव योग की संख्या

A.18 B.45

C.39 D.60

62. व्याध्यातुर बलापेक्षिणी क्या होती है

A.कषाय B.कषाय कल्पना

C.रस D.द्रव्य

63.अर्जुन किस महाकषाय मे है

A.हृद्य B.उदर्दप्रशमन

C.पाचनीय D.संज्ञास्थापन

64.अणु तैल की मात्रा

A.1 कर्ष B.2 कर्ष

C.3 कर्ष D.4 कर्ष .

65.भिषजा प्राक् परीक्ष्यैव विकाराणां स्वलक्षणम् – संदर्भ

A. च.सू. 20 B. च.सू. 9

C. च.सू. 10 D. च.सू. 16

66. Abhaya is

A. Falini B.Mulini

C.Haritaki D.A+C

67. विद्यादेकपथं रोगं नातिपूर्णचतुष्पदम किसके लिये

A. सुखसाध्य B. कृच्छसाध्य

C. याप्य D. अनुपकम

68. चरकानुसार प्रायोगिक धूमनेत्र लम्बाई

A. 48 B. 40

C. 36 D. 32

69. प्रत्यकपुष्पी है

A. फलिनी B. मूलिनी

C. क्षीरीवृक्ष D. सभी

70. reference of वरमाशीविषविषं क्वथितं ताम्रमेव वा

A.C.Su. 7 B. C.Su. 1

C. C.Su. 4 D. C.Su. 5

71. For दातौन, best among katu dravya

A.Nimb B.Karanj

C.Khadir D.Madhuk

72. Total no of shodhan kshirivriksha

A.3 B.6

C.9 D.none

73.. पुनरहितेभ्योऽर्थेभ्यो मनोनिग्रहः

A. संस्कार B.सत्वावजय

C. सत्व D. कोई नहीं

74. Ref of नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा

A.C Su 4 B.C Su 5

C.C Su 6 D. C Su 7

75. चरक ने किस धूम्रपान के 8 कालों को उल्लेखित किया है

A. स्नैहिक B.वैरेचनिक

C. प्रायोगिक D.All

76.वर्षा ऋतु मे किस रस की प्रधानता

A.मधुर B.अम्ल

C.लवण D.कटु

77. दिवा शीतगृहे निद्रा निशि चन्द्रांशु शीतलम for

A. vasanta B. hemant

C. sarad D. grishma

78.. निम्न मे कौन प्रविचारणा नही है

A. कर्णतैल B. कवल

C. काम्बलिक D. भक्ष्य

79.न हि एकं हि एककालमनेकेषु प्रवर्तते for

A.atma B.mana

C.both D.none

80. इते प्रषमनं गुप्त्यावरणशंकरम किससे लाभ है

A.दण्ड धारण B.छाता धारण

C.स्नान D.All

81. तुल्यार्थता हि सामान्यं- is characteristic of

A.Dravay samanya B. Guna samanya

C. Karma samanya D.None

82. Which is not in tridanda

A.Satva B.Atma

C.Indriya D.Sharir

83. सीधु एवं माध्वीक का पान किस ऋतु मे करना चाहिए

A.वसन्त B.वर्षा

C.हेमन्त D.शिशिर

84. सभी साधारण विधियों का पालन किसमे करना चाहिए

A.वसन्त B.वर्षा

C.हेमन्त D.शिशिर

85. किस प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष की जरूरत होती है

A. युक्ति B. अनुमान

C. उपमान D. तर्क

86. बर्फ को देखकर शीतलता का ज्ञान कौन प्रत्यक्ष है

A. सामान्यलक्षण प्रत्यासति B. ज्ञानलक्षण प्रत्यासति

C. युक्त D. युन्जान

87. चरकानुसार प्रायोगिक धूमनेत्र लम्बाइ

A. 48 B. 40

C. 36 D. 32

88. मानसं प्रतिभैषज्यं चतुर्वर्गस्यान्वेक्षणम् – संदर्भ

A. चरक सूत्र 12 B. चरक सूत्र 11

C. चरक सूत्र 10 D. none

89. शारंगधर के अनुसार प्राणवायु का स्थान

A. हृदय B. नाभि

C. कण्ठ D. शिर

90. रसान्जन प्रयोग कितने दिन के अन्तर पर करना चाहिए

A.2–4 B.5–8

C.10–12 D.None

91. Hartal & Manahshila are used in which dhoompan

A.Prayogik B.Snahik

C.Shirovirechanik D.All

92. एक मूहूर्त =

A. 58 मिनट B. 48 मिनट

C. 48 घण्ठा D. 38 मिनट

93. Contra-indicated in sharad ritu

A.Kshar B. Day sleeping

C.Pragvata D.All

94. Five Leaved Chaste is

A.वत्सनाभ B.निर्गुण्डी

C.रास्ना D.वचा

95. Methyl Mercaptan is present in

A.वचा B.प्रसारिणी

C.अर्हिफेन D.None

96.Wild cinchona is

A.कुनैन B.कदम्ब

C.रास्ना D.चिरायता

97.स्वेदागम श्वासवृद्धिगात्राणां लाघवं तथा है

A. व्यायाम का निदान B. व्यायाम का हानि

C. व्यायाम का उपद्रव D. व्यायाम का लक्षण

98. इन्द्रियां होती है

A.प्रत्यक्ष गम्य B. अनुमान गम्य

C.Both D.None

99. निम्न को छोड़कर अन्य बासी भोजन नही करना चाहिए **Except**

A. मांस, B. हरितकी

C. फल D. शुष्क शाक

100. मांगलिक पदार्थो के किस भाग से होकर नही जाना चाहिए

A.पश्चिम B. दक्षिण

C. वाम D. पूर्व

Paper Set-1

1	B	2	B	3	D	4	C	5	B
6	A	7	D	8	C	9	B	10	B
11	C	12	B	13	D	14	C	15	B
16	B	17	B	18	D	19	D	20	D
21	C	22	D	23	A	24	D	25	B
26	C	27	D	28	A	29	B	30	D
31	C	32	A	33	B	34	C	35	D
36	C	37	C	38	B	39	C	40	C
41	A	42	B	43	B	44	B	45	C
46	A	47	D	48	B	49	D	50	B
51	B	52	B	53	D	54	C	55	C
56	C	57	B	58	D	59	D	60	A
61	D	62	B	63	B	64	B	65	C
66	D	67	B	68	C	69	A	70	B
71	B	72	A	73	B	74	B	75	C
76	B	77	D	78	B	79	B	80	A
81	C	82	C	83	A	84	B	85	B
86	B	87	C	88	D	89	B	90	B
91	C	92	B	93	D	94	B	95	B
96	B	97	D	98	B	99	B	100	B

PAPER SET -2

1. तक्रारिष्ट प्रयोगश्च रूक्षपान्नसेवनम्।
मूत्राणां त्रिफलायांश्च .... ।। किसकी चिकित्सा है

A. विरेचन अतियोग B. स्नेहन अतियोग
C. वमन अतियोग D. None

2. कुष्ठ शोथ तथा प्रमेह में क्रमशः किससे सिद्ध स्नेहप्रयोग

A. त्रिफला, पिप्पली, हर्रे B. हर्रे, पिप्पली, त्रिफला
C. पिप्पली, त्रिफला, हर्रे D. पिप्पली, हर्रे, त्रिफला

3. पक्वाशय में यदि कफ कुपित हो तो

A. पहले रूक्ष स्वेद B. पहले स्निग्ध स्वेद
C. पहले शीत स्वेद D. पहले लघु स्वेद

4. ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन किसकी चिकित्सा है

A. विरेचन अतियोग B. स्वेदन अतियोग
C. वमन अतियोग D. स्नेहनअतियोग

5. भय है

A..निरग्नि स्वेद B..पित के कर्म
C.. Both D.. None

6. सम्यक्प्रयोगनिमिता हि सर्वकर्मणा सिद्धिरिष्टा – संदर्भ

A. च.सू. 20 B. च.सू. 9
C. च.सू. 15 D. च.सू. 16

7. हृल्लास्यास्यस्रवणाभ्यामपि ....

A..कुक्षिमनुगतं B.. प्रविलयमानं
C.. चोर्ध्वमुखीभूतम D.. स्थानेभ्य प्रचलितः

8. चिकित्सा प्राभृत से लाभ है

A.. देह सुख

B. आयु हानि .

C.. Both

D..None

9. पौरुषार्थ वृद्धि मे कौन सा स्नेह

A. वसा

B. तेल

C. मज्जा

D. घृत

10. वातार्ता कूरकोष्ठा मे कौन स्नेह

A. वसा

B. तेल

C. मज्जा

D. घृत

11. फलै.....................

A. वानस्पत्य

B. वनस्पति

C. both

D. none

12. गौमांस रस और खट्टे अनार रस से सिद्ध यवागू

A. कण्ठ्य

B. विषमज्वर

C. क्षुधानाशक

D. None

13. पत्राम्बु लोध्राभयाचन्दनानि है ....

A. दुर्गंधहर

B. विषहर

C. स्वेद हर

D. All

14. कफःपंगु पितःपंगु पंगवो मल धातवः संदर्भ

A. शारंगधर

B. चरक

C. सुश्रुत

D. कोई नहीं

15. वातशमन के कारणो का उतर किसने दिया

A. कुश

B. कांकायन

C. वडिश

D. कोई नहीं

16. हर्षोत्साह योनि किसका कर्म है

A. प्राकृत लोक वायु
B. प्राकृत शारीर वायु
C. विकृत शारीर वायु
D. विकृत लोक वायु

17. प्रवर्तनं श्रोतसां

A. प्राकृत लोक वायु
B. प्राकृत शारीर वायु
C. विकृत शारीर वायु
D. विकृत लोक वायु

18. विभागो धातूनां

A. प्राकृत लोक वायु
B. प्राकृत शारीर वायु
C. विकृत शारीर वायु
D. विकृत लोक वायु

19. भावानां चाभावकराणां

A. प्राकृत लोक वायु
B. प्राकृत शारीर वायु
C. विकृत शारीर वायु
D. विकृत लोक वायु

20. मोह किसका कर्म है

A. कफ
B. पित
C. वात
D. कफ व पित

21. संस्कारस्यानुवर्तनात् किसके लिये

A. वात
B. वसा
C. घृत
D. तैल

22. बलाधन और स्नेहन के लिए सर्वश्रेष्ट

A. एरण्ड तैल
B. तिल तैल
C. मज्जा
D. सभी

23. कर्णशूल मे कौन सा स्नेह

A. वसा
B. तेल
C. मज्जा
D. घृत

24. अत्यंत उष्णकाल मे दिन मे स्नेह पीने से होता है

A. पाण्डु
B. कामला
C. शूल
D. आनाह

25. वसा का अनुपान

A. जल
B. मण्ड
C. यूष
D. विलेपी

26. निम्न मे कौन प्रविचारणा नही है

A. कर्णतैल
B. कवल
C. काम्बलिक
D. भक्ष्य

27. स्नेह की कौन सी मात्रा उन्माद नाशक है

A. 24घण्टे मे पचने वाली
B. 12 घण्टे मे पचने वाली
C. 6 घण्टे मे पचने वाली
D. 3 घण्टे मे पचने वाली

28. सर्वमार्गानुसारिणी मात्रा है

A. प्रधान
B. मध्यम
C. हीन
D. कोइ नही

29. कृमि कोष्ठ मे कौन स्नेह

A. वसा
B. तेल
C. मज्जा
D. घृत

30. स्नेह की कौन सी मात्रा ज्वर नाशक है

A. प्रधान
B. मध्यम
C. हीन
D. कोइ नही

31. स्नेह की कौन सी मात्रा शोधन मे प्रयोग होती है

A. प्रधान
B. मध्यम
C. हीन
D. कोइ नही

32. संशुष्करेतोरुधिरा मे कौन स्नेह

A. वसा B. तेल

C. मज्जा D. घृत

33. पाण्डुता किसका लक्षण है

A. अस्निग्ध B. अतिस्निग्ध

C. सम्यक् स्निग्ध D. सभी

34. निराम पित मे किसका प्रयोग नही होता है

A. सर्पि B. वसा

C. कफ D. कोइ नही

35. **सत्य कथन है**

1. त्रिफला कल्क से सिद्ध स्नेह प्रमेह मे प्रयोग करते है
2. पित स्वभावतः सर द्रव उष्ण होता है
3. स्नेह के अजीर्ण होने पर विरेचन कराते है
4. पिप्पली, हरीतकी से सिद्ध स्नैह शुक्रदोष मे प्रयोग करते है

A.1,2,3,4 B. 1,2,4

C. 1,2,3 D. 1,2

36. वंक्षण पर कौन स्वेदन

A. मृदु B. मध्यम

C. कोइ नही D. दोनो

37. स्नेह का अयोग होने पर किस ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए

A. ग्रीष्म B. शरद्

C. वसन्त D. कोइ नही

38. वस्तशिर का प्रयोग किस स्वेदन मे

A. नाडी B. संकर

C. उपनाह D. प्रस्तर

39. नाडीस्वेद मे नाडी की लम्बाइ

A. 3 व्याम B. 1व्याम

C. 2व्याम D. 1हाथ

40. सुश्रुत के अनुसार उपनाह है

A. निरग्नि B. अग्नि

C. दोनो D. कोइ नही

41. जेन्ताक मे कूटागार की उचाई

A. 4अरत्नि B. 16 अरत्नि

C. 8 अरत्नि D. 32 अरत्नि

42. अनत्युत्सेधविस्तारा वृताकारमलोचनाम् किसके लिए

A. जेन्ताक B. कुटी

C. कुम्भी D. कर्षू

43. फेनिलरक्तचन्द्रिकोपगमन किसका लक्षण

A. विरेचन अतियोग B. वमन अतियोग

C. दोनो D. वमन अयोग

44.विरेचन हेतु त्रिवृत कल्क की मात्रा

A. एक पल B. एक कर्ष

C. एक प्रसृत D. एक प्रस्थ

45. विरेचन के कितने देर बाद धूमपान कराना चाहिए

A. 1मूहूर्त B. 3मूहूर्त

C. 2मूहूर्त D. कोइ नही

46. उर्ध्वगत वात रोग किससे होते है

A. विरेचन अतियोग B. विरेचन अयोग

C. वमन अतियोग D. वमन अयोग

47. घूर्णतीव शिरःसर्वसन्धिभ्यः किसके लिये

A. वातज हृद्रोग B. पितज हृद्रोग

C. वातज शिरोरोग D. पितज शिरोरोग

48. Match

a-संधिस्फुटन $-मांसक्षय
b-संधिशैथिल्य %-मेदक्षय
c-धमनीशैथिल्य &-रक्तक्षय
d-शिराशैथिल्य @-अस्थिक्षय

A. a-&,b-$,c-@,d-% B. a-@,b-&,c-$,d-%

C. a-&,b-@,c-$,d-% D. a-%,b-@,c-$,d-&

49. भोज ने सुश्रुत से भिन्न पिडका माना है

A. कच्छपिका B. कुलत्थिका

C. विनता D. विदारिका

50. पीठ या उदर पर पायी जाने वाली लाल वर्ण की पिडका है

A. कच्छपिका B. विनता

C. विदारिका D. कोई नही

51. Match अर्न्तविद्रधि

a-श्वास $-नाभि
b-मुखशोष %-वृक्क
c-हिक्का &-क्लोम
d-पृष्ठकटिग्रह @-यकृत

A. a-&,b-$,c-@,d-% B. a-@,b-&,c-$,d-%

C. a-&,b-@,c-$,d-% D. a-%,b-@,c-$,d-&

52. किस स्थान की पिडका साध्य होती है–चरक

A. पीठ B. स्तन

C. हाथ D. पाद

53. **क्षिप्रोत्थानप्रशमो भवति** किस शोथ के लिये

A. वातज B. पितज

C. कफज D. A+B

54. **स्पर्शोष्ण सहश्चेति** किस शोथ के लिये

A. वातज B. पितज

C. कफज D. सभी

55. **प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो दिवाबली** किस शोथ के लिये

A. पितज B. वातज

C. कफज D. सभी

56. **पूर्वमध्यात प्रशूयते** किस शोथ के लिय

A. वातज B. पितज

C. कफज D. सभी

57. गलग्रह कहा की व्याधि है

A. गलबाह्य B. अर्न्तगले

C. जिहवामूल D. काकल

58. कौन कर्णमूलिक शोथ साध्य होता है

A. ज्वरान्ते B. ज्वरादितो

C. ज्वरमध्ये D. सभी

59. त्रिरात्रं परम तस्य जन्तो भवति जीवितम् किसके लिये

A. शंखक B. रोहिणी

C. दोनो D. अलजी

60. विसर्प के भेद

A. 4 B. 5

C. 7 D. 6

61. मूत्राघात भेद

A. 13　　B. 8

C. 5　　D. 6

62. आमत्रिदोषसमुत्थ व्यााधि

A. संन्यास　　B. उरूस्तम्भ

C. अलसक　　D. अतत्वाभिनिवेश

63. हिक्का कौन नानात्मज व्याधि है

A. कफज　　B. वातज

C. पितज　　D. A+B

64. सत्य कथन है

1. तम, तमःप्रवेश कमशः पितज व वातज नानात्मज व्याधि है
2. पिपासा वेग धारण से वैवर्ण्य होता है
3. गुदभ्रंश कोष्ठगत व्याधि है
4. गलगण्ड कफज नानात्मज व्याधि है

A. 1.2.3.4　　B. 1.4

C. 1.3.4　　D. 4

65. भिषजा प्राक् परीक्ष्यैव विकाराणां स्वलक्षणम् – संदर्भ

A. च.सू. 20　　B. च.सू. 9

C. च.सू. 10　　D. च.सू. 16

66. 5 भेदवाले रोग कितने है

A. 10　　B. 8

C. 4　　D. 12

67. दुश्छायो दुर्मना रूक्षः किसके क्षय का लक्षण है

A.. .शुकक्षय　　B.. पुरीष क्षय

C.. रसक्षय　　D.. ओज क्षय

68. वैद्यभाण्डौषधै पुस्तै पल्लवैरवलोकनै कौन वैद्य है

A. सिद्धसाधित B. छदमचर

C. जीविताभिसर D. All

69. क्षेप्ता बर्हिमलानां किस वायु का कर्म है

A. समानवायु B. उदानवाय

C. व्यानवाय D. अपानवायु

70. शरद मे क्या खाना चाहिए

A. वसा B. घृत

C. दही D. क्षार

71. निम्न मे कौन वमन अयोग का लक्षण है

A. विभ्रंश B. विवन्ध

C. दोनो D. विरेचन

72.Screw Pine is

A. केतक B. कतक

C. कोशाम्र D. क्लीतक

73. Match

a-नदीसर्ज	$-Flacourtiaceae
b-indian oleander	%-Combretaceae
c-कटुकपित्थ	&-Bignoniacaea
d-ताम्रपुष्पी	@-apocynaceae

A. a-&,b-$,c-@,d-% B. a-@,b-&,c-$,d-%

C. a-&,b-@,c-$,d-% D. a-%,b-@,c-$,d-&

74. Match

a-अम्बुवासिनी $-घनसार
b-रक्तसार %-Acanthaceae
c-चन्द्र &-अलिवल्लभा
d-वृष @-Cutch tree

A. a-&,b-$,c-@,d-% B. a-@,b-&,c-$,d-%
C. a-&,b-@,c-$,d-% D. a-%,b-@,c-$,d-&

75. प्लीहावृद्धि मे सर्वश्रेष्ट
A. निम्ब B. तन्तुभ
C. अमोघा D. स्वर्णभूषण

76. पन्चकर्मगुणातीतं किस व्याधि के सन्दर्भ मे आया है
A. कुष्ठ B. प्रमेह
C. राजयक्ष्मा D. रक्तपित

77.Fridelin किसमे पाया जाता है
A. अर्जुन B. पाटला
C. आरग्वध D. कर्पूर

78. वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्य च – संदर्भ
A. शारंगधर B. माधव
C. वाग्भट्ट D. वृन्द माधव

79.Wedelactone is found in
A.कुम्भीपुष्पी B. मार्कव
C. मुनिद्रुम D. खरपत्रा

80. पिप्पली भेद राजनिघण्टु
A. 5 B. 4
C. 3 D. 6

81.Indian coral tree is

A. करवीर B. कण्टकीपलाश

C. कुंकुम D. वत्सादनी

82. Match

a-दध्याली $-Ceylon oak
b-नारिकेल %-जद्वार
c-कोशाम्र &-Lycorin
d-वत्सनाभ @-दाक्षिणात्यक

A. a-&,b-$,c-@,d-% B. a-@,b-&,c-$,d-%

C. a-&,b-@,c-$,d-% D. a-%,b-@,c-$,d-&

83.वत्सनाभ का सेवन विशेषतः किस ऋतू मे करना चाहिए

A. वसन्त B. ग्रीष्म

C. शरद D. All

84.किसके बीज को श्वेत मरीच कहते है

A. शिग्रु B. करन्ज

C. कोशातकी D. None

85. किस कुंकुम मे मधु जैसी गन्ध होती है

A. काश्मीरज B. बाह्लीक

C. पारसीक D. All

86. प्राणा प्राणभृतां यत्राश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च क्या है

A. वस्ति B. शिर

C. हृदय D. मन

87. Family of कुपीलु

A.Leguminaceae B.Loganiaceace

C.Ascelepiadeaceae D.Apocyanaceae

88. Bird Cherry is

A.Prunus B.Cedrus

C.Commiphora D.Paederia

89. क्षमाधृतिरलोभश्च किसका कर्म है

A. वात B. पित

C. कफ D. All

90. संशोधन के अतियोग की चिकित्सा

A. सर्पि पान B. आस्थापन

C. दोनो D. कोइ नही

91. संसर्जन क्रम मे भात किस काल मे खिलाते है

A. पाचवे B. छठें

C. सातवे D. चौथे

92. शस्त्रकुशछिन्नातशोणितं न प्रवर्तते किस शोथ का लक्षण है

A. कफ B. पित

C. वात D. सभी का

93. लोमहर्ष से क्या समझना चाहिए

A. दोष पिघल रहे है B. दोष अपने स्थान से चलरहे है

C. दोष उर्ध्वमुख हो रहे है D. सभी

94. दोषा कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनै। – संदर्भ

A. चरक सूत्र 12 B. चरक सूत्र 13

C. चरक सूत्र 10 D. चरक सूत्र 16

95. रात्रि मे उपनाह बाधा गया हो तो कब खोलना चाहिए

A. रात्रि B. दिन मे

C. कभी भी D. उपव्यूष काल मे

96. निम्न मे ओज से सॅम्बन्धित है

A. मधुगन्धि B. लाजरसं

C. सर्पिरसं D. कोइ नही

97. सौसुराद है

A. रक्तज B. मलज

C. पुरीषज D. श्लेष्मज

98. रस किसका स्थान है

A. कफ B. पित

C. वात D. सभी का

99. चरक ने कौन सा विद्रधि स्थान नही माना है

A. क्लोम B. गुदा

C. नाभि D. प्लीहा

100. प्लीहावृद्धि कौन सा रोग है

A. कफज B. वातज

C. पितज D. कोइ नही

PAPER SET -2

1	B	2	D	3	B	4	B	5	C
6	C	7	C	8	A	9	A	10	C
11	B	12	B	13	A	14	A	15	B
16	B	17	A	18	A	19	D	20	D
21	C	22	B	23	A	24	B	25	B
26	B	27	A	28	A	29	B	30	C
31	B	32	A	33	B	34	D	35	D
36	B	37	D	38	A	39	B	40	B
41	B	42	B	43	B	44	B	45	D
46	C	47	C	48	D	49	B	50	D
51	B	52	A	53	D	54	C	55	B
56	B	57	B	58	B	59	B	60	C
61	B	62	B	63	B	64	D	65	C
66	D	67	D	68	B	69	D	70	B
71	C	72	A	73	D	74	C	75	B
76	A	77	A	78	D	79	B	80	B
81	B	82	C	83	A	84	A	85	C
86	B	87	B	88	A	89	C	90	A
91	C	92	A	93	B	94	D	95	B
96	D	97	C	98	B	99	B	100	B

PAPER SET-3

1. अभिष्यणा महादोषा मर्मस्था व्याध्यश्च किसके योग्य

A. वृंहण B. रुक्षण

C. लंघन D. All

2.. मधु के साथ हर्रे के चूर्ण का सेवन किसकी चिकित्सा है

A. अतिस्थूल B. अतिकृश

C. संतर्पण जन्यरोग D. अपतर्पण जन्यरोग

3.शरदकाले स्वभावाच्च .... सम्प्रदुष्यति

A. वातं B. शोणितं

C. कफं D. पितं

4. रक्तमोक्षण के बाद विशेष रूप से की रक्षा करनी चाहिए

A. वात B. पितं

C. अग्नि D. कफं

5.. हिक्का कौन नानात्मज व्याधि है

A. कफज B. वातज

C. पितज D. A+B

6.सद्यः फलाः कियाः करने का उपदेश किसमे किया है

A. मद B. मूर्च्छा

C. संन्यास D. All

7.प्लीहावृद्धि कौन सा रोग है

A. कफज B. वातज

C. पितज D. कोइ नही

8. अतिगौर मे किस दोष की प्रधानता होती है

A. कफ B. वात

C. पित D. रक्त

9. पथ्यापथ्य नियामक घटक नही है

A. मात्रा, B. काल

C. देश D. क्रिया

10.. अष्टनिन्दित मे चिकित्सा की दृष्टि से निन्दित कितने है

A. 6 B. 4

C. 8 D. 2

11. जो दोष को अपने स्थान से उभार दे पर उन्हें बाहर न निकाले –है

A. वैरोधिक आहार B. विष

C. आमलकी D. All

12. प्रमेही को किस ऋतु मे लंघन कराना चाहिए

A. वसन्त B. शरद

C. हेमन्त D. ग्रीष्म

13. स्थूलपर्वा किसके लिये है

A. अतिस्थूल B. अतिकृश

C. अतिदीर्घ D. अतिह्रस्व

14. उन्माद है

A. अपतर्पण जन्यरोग B. संतर्पण जन्यरोग

C. दोनो D. कोई नहीं

15.शमीधान्य में सबसे उत्तम होता है

A. माष B. अरहर

C. कलाय D. मूंग

16. निम्न मे से कौन दिवाशयन के अयोग्य है

A. श्वास रोगी
B. हिक्का
C. दूषीविष पीडित
D. अजीर्ण रोगी

17. स्थौल्य और कार्श्य के कारण है

A. स्वप्न
B. आहार
C. ब्रह्मचर्य
D. A+B

18. कौन फल कच्चा ही लाभकारी होता है

A. कदम्ब
B. आम्र
C. बिल्व
D. जम्बू

19. सूखी मूली होती है

A. कफपितहर
B. कफहर
C. वातहर
D. कफवातहर

20. हृदय रोग किस जल से होता है

A. पारियात्र
B. विन्ध्य
C. सह्य
D. All

21. सत्य कथन है

1.वाग्भट ने तमोभवा निद्रा नही माना है
2.अतिह्रस्व मे मंदाग्नि होती है
3. अतिस्थूल मे गुरु और संतर्पण आहार देते है
4.तिमिर वात नानात्मज व्याधि है
5.नेत्रग्लानि रक्तक्षय का लक्षण है
6.रात्रिजागरण रुक्ष होता है

A. 1,2,3,4,6
B. 2,4,6
C. 1,3,4,6
D. 2,5,6

22.. हृदयरोगी मे लंघन किससे कराना चाहिए

A. उपवास B. व्यायाम

C. पिपासा D. पाचन

23.यवामलक का प्रयोग किसमे करते है

A. अतिस्थूल B. अतिकृश

C. अतिदीर्घ D. अतिह्रस्व

24. *प्राणिनां प्राणा .... हि अनुवर्तते*

A. कफं B. शोणितं

C. वातं D. पितं

25. मृदूकरोति स्रोतांसि स्वेदं संजनत्यपि किसका गुण

A. मण्ड B. पेया

C. विलेपी D. यवागू

26.. किसमे पन्चकर्म करते है

A. मद B. मूर्च्छा

C. संन्यास D. A+B

27. प्रमीलक है

A. अपतर्पण जन्यरोग B. संतर्पण जन्यरोग

C. रक्तज रोग D. B+C

28. Match

a-शरलोमा	$-मातृपितृवाद
b-कांकायन	%-सत्ववाद
c-कौशिक	&-स्वभाववाद
d-भरद्वाज	@-प्रजापतिवाद

A. a-&,b-$,c-@,d-% B. a-@,b-&,c-$,d-%

C. a-&,b-@,c-$,d-% D. a-%,b-@,c-$,d-&

29.. निम्न मे कौन बिना औषधि के ठीक नही होता है

A. मद B. मूर्च्छा

C. संन्यास D. सभी

30.. कितनी आसव योनिया है

A. 84 B. 86

C. 8 D. 9

31. काष्ठीभूतो मृतोपमम् किसका लक्षण है

A. मद B. मूर्च्छा

C. संन्यास D. सभी

32. Match

a-कांकायन	$- 5 रस
b-भद्रकाप्य	%-असंख्य रस
c-भारद्वाज	&- 4 रस
d-कौशिक	@-1 रस

A. a-&,b-$,c-@,d-% B. a-@,b-&,c-$,d-%

C. a-&,b-@,c-$,d-% D. a-%,b-@,c-$,d-&

33. चार रसो के कितने संयोग है

A. 6 B. 15

C. 20 D. 1

34.क्षार को रस किसने माना है

A. विदेह B. धामार्गव

C. वायोर्विद D. A+B

35. सर्वरस प्रत्यनीकभूतः किस रस का गुण है

A. मधुर B. अम्ल

C. लवण D. कटु

36. किसके अनुसार कषाय रस का विपाक मधुंर होता है

A. चकदत B. सुश्रुत

C. पाराशर D. काश्यप

37. बध्नातीव च यः कण्ठः – किस रस का गुण है

A. मधुर B. तिक्त

C. लवण D. कषाय

38. न च सर्वाणिशरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति–संदर्भ

A. च.सू.20 B. च.सू. 19

C. च.सू.8 D. च.सू.28

39.. हेमन्त ऋतु में संचित कफ बसन्त में कफजन्य रोगकारक होता है

A. सन्निकृष्ट कारण B. विप्रकृष्ट कारण

C. व्यभिचारी D. प्राधानिक

40.. ....व्याधिकराणां

A. विषमासनं B. विरुद्धवीर्याशनं

C. मिथ्यायोगो D. प्रमिताशनं

41. कलिप्रिय किस मद का लक्षण है

A. कफज B. वातज

C. पितज D. सन्निपातज

42. उन्माद मे वर्णित कल्याणक घृत मे कितने घटक है

A. 26 B. 28

C. 38 D. 36

43. वराहवसा.............

A. जलचरविहंगवसानां B. आनूपमृगवसानां

C. शाखादमेदसां D. स्नेहानां

44. क्रमुक है

A. काण्डासव B. पत्रासव

C. त्वगासव D. मूलासव

45. आत्रेभद्रकाप्यीय संभाषा कहा हुयी थी

A. हिमालय B. पन्चगंग प्रदेश

C. चैत्ररथ वन D. कैलाश पर्वत

46. वायव्य रस किसने माना है

A. भद्रकाप्य B. भरद्वाज

C. हिरण्याक्ष D. पूर्णाक्ष

47. .... श्रमघ्नी तु क्षामकण्ठस्य देहिनः

A. पेया B. लाजपेया

C. मण्डपेया D. मण्ड

48.लघु,उष्ण,स्निग्ध किस रस का गुण है

A. मधुर B. अम्ल

C. लवण D. कटु

49. लघुतम किस रस का गुण है

A. मधुर B. तिक्त

C. लवण D. कषाय

50. स्वयमरोचिष्णुरप्यरोचकघ्नो किस रस का गुण है

A. मधुर B. तिक्त

C. लवण D. कषाय

51. उष्णतम किस रस का गुण है

A. मधुर B. तिक्त

C. लवण D. कषाय

52. कफ का विशेष स्थान काश्यप ने क्या माना है

A. उरः
B. हृदय
C. आमाशय
D. सन्धि

53.श्लोक स्थान मे अध्याय संख्या

A. 8
B. 12
C. 30
D. 10

54. इक्षुवर्ग में कौन श्रेष्ठ होता है

A. वंशक
B. पौण्ड्रक
C. Both
D. None

55.यदाहारगुणैः पानं विपरीतं तदिष्यते किसका लक्षण है

A. मधुदक
B. अनुपान
C. विरुद्धाहार
D. All

56. तन्त्रार्थ मे प्रकरणो की संख्या

A. 8
B. 10
C. 12
D. 9

57. सूत्रस्थान की निरुक्ति किस अध्याय मे

A. च.सू.30
B. च.सू.29
C. च.सू.1
D. च.सू.19

58. प्रमेहाणां पूर्वरोगाणां– कौन धातु प्रदोषज विकार है

A. दुष्ट मांसज
B. दुष्ट मेदज
C. दुष्ट मज्जा
D. दुष्ट रसज

59. संशुद्धि शस्त्रक्षाराग्निकर्म च किसकी चिकित्सा

A. दुष्ट मांसज
B. दुष्ट मेदज
C. दुष्ट मज्जा
D. दुष्ट रसज

60. कोष्ठसे शाखा मे दोषो के गमन का कारण नही है

A. अहितस्यानवचारणात B. द्रुतत्वानुमारुतस्य

C. वायोश्च निग्रहात D. उष्मणः तैक्ष्ण्यात

61. प्राणिनां प्राणवर्धनानां उत्कृष्टतमम्....

A. विद्या B. वीर्य

C. अहिंसा D. ब्रह्मचर्य

62. परीक्षक मनुष्यो के गुण है

A. 8 B. 9

C. 10 D. कोई नहीं

63. वाग्विशुद्धि शमो धैर्यमाश्रयन्ति............ किसका गुण

A. जल्पक B. शास्त्र

C. परीक्षक मनुष्य D. जीविताभिषर वैद्य

64. प्राणाभिसर वैद्य कहा कहा बताया गया है

A. च.सू.9, च.सू.19 B. च.सू.9, च.शा.29

C. च.सू.29, च.सू.9 D. सभी

65. जिहवा बंधन एवं शंख को प्राणायतन किसने माना है

A. चरक B. सुश्रुत

C. अष्टांग संग्रह D. अष्टांग हृदय

66. शिरस्ताल्वन्तरगतं सर्वेन्द्रियं परं मनः किसने माना है

A. अग्निवेश B. भेल

C. हारीत D. पराशर

67. गुल्म है

A. दुष्ट मांसज B. दुष्ट मेदज

C. दुष्ट रक्तज D. दुष्ट रसज

68. आत्मा च सगुण्श्चेतंचिन्त्यं च .... संश्रितम्

A. शरीर
B. मन
C. हृदय
D. ओज

69. यदृते सर्वभूतानां जीवितं नावतिष्ठते किस का गुण है

A. शरीर
B. मन
C. हृदय
D. ओज

70. यत् शरीररसस्नेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता किस का गुण है

A. शरीर
B. रस
C. हृदय
D. ओज

71. स्रवणात.........., सरणात्................ किसके लिये

A. सिरा, सिरा
B. सिरा,स्रोतस
C. स्रोतस, सिरा
D. स्रोतस, स्रोतस

72. .... वृंहणानां

A. विद्या
B. मांस
C. दोनो
D. वीर्य

73. इन्द्रियजयो..............................

A. बलवर्धनानां
B. नन्दनानां
C. हर्षणानां
D. मनुष्याणां .

74. उपवास, रास्ता चलने से क्लान्त व्यक्तियों के लिए अनुपान

A. सुरा
B. दूध
C. मद्य
D. मधूदक

75. धातवो हि धात्वाहाराः प्रकृतिमनुवर्तते – संदर्भ

A. च.सू.28
B. च.सू.29
C. च.सू.1
D. च.सू.19

76. रक्तमीपतसपीतकम किसका वर्ण है

A. मज्जा B. ओज

C. रक्त D. सर्पि

77. चीनी के साथ शीतल मन्थ का सेवन किस ऋतु मे

A. ग्रीष्म B. वसन्त

C. शिशिर D. हेमन्त

78. त्रिविध वस्ति कर्म किसकी चिकित्सा

A. पुरीष वेग B. छर्दि वेग

C. मूत्र वेग D. क्षवथु वेग

79. सहस्य के प्रथम मास .... में पित्त का विरेचन

A. श्रावण B. अगहन

C. चैत्र D. कार्तिक

80. चेष्टाप्रत्ययभूतमिन्द्रियाणाम किसे कहा गया है

A. आत्मा B. मन

C. बुद्धि D. काल

81. चरक ने स्नैहिक धूम्रपान के कितने कालों को उल्लेखित किया ह।

A. 12 B. 8

C. 14 D. None

82. ततः .... कर्म हितं दृष्टे प्रसादनम

A. वातहरं B. पितहरं

C. श्लेष्महरं D. All

83. Match

a-वारिद	$-Verbenaceae
b-रक्तमरीच	%-गन्धमूलिका
c-पद्मा	&-कटुवीरा
d-पलाशी	@-Nut grass

A. a-&,b-$,c-@,d-%   B. a-@,b-&,c-$,d-%

C. a-&,b-@,c-$,d-%   D. a-%,b-@,c-$,d-&

84. match

a-Eugenol	$-Garcinia indica
b-Berberine	%-उत्कट
c-Kokam butter	&-भंगुरा
d-Heteratisine	@-Xanthoxylum armatum

A. a-&,b-$,c-@,d-%   B. a-@,b-&,c-$,d-%

C. a-&,b-@,c-$,d-%   D. a-%,b-@,c-$,d-&

85. Match

a-Kantakipalash	$-Samgandhak
b-Bahuput	%-paribhadra
c-Nalad	&-Nahush
d-Bakra	@-lekhyapatrak

A. a-&,b-$,c-@,d-%   B. a-%,b-@,c-$,d-&

C. a-&,b-@,c-$,d-%   D. a-@,b-&,c-$,d-%

86. Sweet flag is

A.क्षेमक   B.षडग्रंथा

C.तन्तुभ   D.अमृत

87. Salvadora persica is

A.Tooth brush tree   B. Tooth ache tree

C. both   D.None

88.. .... वातकराणां

A.रास्ना B.जम्बू

C.दोनो D.कोई नही

89. हरिद्रा किस पंचमूल मे है

A.तृण B.लघु

C.वल्ली D.मध्यम

90. Elaiocarpus ganitrus is

A.तुवरक B.रुद्राक्ष

C.बाकुची D.भल्लातक

91.. Match

a-चतुष्पत्री	$-Luffa echinata
b-तापसद्रुम	%-Anthum sowa
c-देवताडक	&-marselia minuta
d-छत्रा	@-balanites aegyptica

A. a-&,b-$,c-@,d-% **B. a-@,b-&,c-$,d-%**

C. a-&,b-@,c-$,d-% **D. a-%,b-@,c-$,d-&**

92. हिक्काश्वासकासपार्श्वशूलहराणां........

A-Plumbago Zelanica B-Cyperus rotundus

C-Uraria picta D-Inula recemosa

93. Match

a- मलयवचा	$- Hedge mustard
b-यवास	%- Emetic nut
c-खूबकलाँ	&- Camel thorn
d- मदनफल	@- Java galanjal

A. a-&,b-$,c-@,d-% B. a-@,b-&,c-$,d-%

C. a-&,b-@,c-$,d-% D. a-%,b-@,c-$,d-&

94. सुमारी नाम से किसका प्रयोग करते है

A. करंज B. कर्णिकार

C. कदम्ब D. None

95.Ring worm plant is

A. कासमर्द B. चक्रमर्द

C. कम्पिल्लक D. All

96.Karabin is extracted from

A. करवीर B. कांचनार

C. both D. None

97. शाखोटक का कुल

A. Myrtaceae B. Moraceae

C. Mimosoideae D. Araceae

98.Celery leaved crow foot is

A. नासासंवेदन B. घ्राणदुखदा

C. अक्षीव D. चमरिक

99. .... खदिरकषायम्

A. उदकमेह B. इक्षुमेह

C. शनैमेह D. शुक्रमेह

100.कर्पुरा क्या है

A. हरिद्रा B. आमगंधि हरिद्रा

C. वन हरिद्रा D. कर्पूर

PAPER SET-3

1	B	2	C	3	B	4	C	5	B
6	C	7	B	8	C	9	C	10	D
11	A	12	B	13	B	14	A	15	D
16	C	17	D	18	C	19	D	20	D
21	B	22	D	23	A	24	B	25	A
26	D	27	D	28	D	29	C	30	D
31	C	32	D	33	B	34	D	35	C
36	C	37	D	38	D	39	B	40	C
41	C	42	B	43	B	44	C	45	C
46	B	47	B	48	B	49	B	50	B
51	C	52	B	53	C	54	B	55	B
56	B	57	A	58	B	59	A	60	C
61	C	62	B	63	C	64	C	65	C
66	B	67	C	68	C	69	D	70	D
71	C	72	C	73	B	74	B	75	A
76	B	77	A	78	C	79	B	80	B
81	D	82	C	83	B	84	D	85	B
86	B	87	A	88	B	89	C	90	B
91	C	92	D	93	B	94	B	95	B
96	A	97	B	98	A	99	C	100	B

PAPER SET- 6

1. स्निग्ध उष्ण लघु होने से कौन वात का नाश करता है

A. तैल B.घृत

C. मधु D. कोई नही

2. स विशेषमारभते किसके लिये है

A. करण B. संयोग

C. देश D. काल

3. प्राणिमात्र की आयु किसकी अपेक्षा करती है

A. संस्कार B. अरिष्ठ

C. युक्ति D. काल

4. सर्वतश्च ग्रहः ....

A. सर्वग्रह B. परिग्रह

C. दोनो D. राशि

5. चीन देशवाले किसका सेवन अधिक करते है

A. लवण B. क्षार

C. पिप्पली D. कोई नही .

6. किस देश मे रोग कम होते है

A. आनूप B. जांगल

C. साधारण D. दोनो की

7. सांग्राहिक रक्तपित प्रशमनानां है

A. अनन्ता B. अमृणाल

C. चन्दन D. रजनी

8. दृढीकरोति इन्द्रियाणि किसका लाभ है

A. स्निग्ध आहार B. उष्ण आहार

C. मात्रावत आहार D. सभी

9. विसूचिका मे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए

A. वमन B. विरेचन

C. लंघन D. कोई नही

10. इन्द्रलुप्त किसका सेवन अधिक करने से होता है

A. लवण B. क्षार

C. पिप्पली D. कोई नही

11. चरक ने आमाशय वर्णन कहॉ किया है

A. चरक विमान 8 B. चरक विमान 2

C. चरक शारीर 4 D. चरक शारीर 6

12. स्वयमिन्द्रियैर्मनसा चोपलभ्यते किसका लक्षण है

A. युक्ति B. प्रत्यक्ष

C. अनुमान D. शब्द

13. परिग्रह से किसकी उत्पति हुई

A. संचय B. लोभ

C. आलस्य D. श्रम

14. व्यवसाय से किसकी परीक्षा करनी चाहिए

A. विद्या B. विज्ञान

C. वैद्य D. धैर्य

15. जघन किस स्रोतस का मूल है

A. मज्जावह B. अस्थिवह

C. मेदोवह D. रसवह

16. परिदाह,लोमहर्ष किस स्रोतसदुष्टि का लक्षण है

A. मज्जावह B. स्वेदवह

C. मूत्रवह D. रसवह

17. चिन्त्यानां चातिचिन्तनात से किस स्रोतस की दुष्टि होती

A. मज्जावह B. स्वेदवह

C. मूत्रवह D. रसवह

18. सर्वापचारसह अग्नि किसके लिय

A. मंदाग्नि
B. तीक्ष्णाग्नि
C. विषमाग्नि
D. कोई नही

19. पैररहित कृमि है

A. मलज
B. रक्तज
C. पुरीषज
D. कफज

20. औडुम्बर है

A. मलज
B. रक्तज
C. पुरीषज
D. कफज

21. कुशल वैद्य बनने के कितने उपाय है

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

22. कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमतामाचार्यः संदर्भ

A. च.वि. 7
B. च.वि. 8
C. च.वि. 9
D. च.वि. 4

23. ....नामोपलब्धि कारणम्

A. प्रतिज्ञा
B. हेतु
C. दृष्टांत
D. उपनय

24. शब्द के कितने भेद है

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

25. ....नाम निश्चयः

A. व्यवसायो
B. अर्थप्राप्ति
C. संशय
D. प्रयोजन

26. धातुसाम्य क्या है

A. कार्यफल
B. कार्य
C. कार्ययोनि
D. सभी

27. विकारागमः किसका लक्षण है

A. कार्यफल
B. कार्य
C. कार्ययोनि
D. सभी

28.प्रसेकश्च गर्भोदकस्य किसका लक्षण है

A. सद्योगृहीत गर्भा
B. प्रसव पूर्वकालिक लक्षण
C. प्रसूता लक्षण
D. कोई नही

29. क्षीरनवनीतमक्षमात्रमश्नीयात किस माह मे आहार है

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

30. गर्भिणी गोधामांस सेवन करती है तो संतान को कौन रोग होता है

A. प्रमेह
B. अश्मरी
C. उदावर्त
D. पलित

31. चरकानुसार पेशी संख्या

A. 700
B. 900
C. 400
D. 500

32. पुरीष का प्रमाण कितना अंजलि होता है

A. 5
B. 7
C. 9
D. 3

33. अलजी का स्थान कौन त्वचा है

A. 4
B. 5
C. 6
D. 3

34. बकरे के मध्य शरीर का मांस किस क्षय मे खिलाते है

A. मूत्र
B. पुरीष
C. शुक
D. कफ

35. वपावहन किस स्रोतस का मूल है

A.मूत्रवह B.अस्थि

C.मांस D.मेद

36. निम्न मे प्रसव के पूर्वकालिक लक्षण कौन है

A. कुक्षेरवस्रंसनम B. विमुक्तबन्धनत्वमिव वक्षसः

C. आवीनां प्रादूर्भावः D.All

37. सप्ताहार कल्पना' का उल्लेख किसने किया है

A.चरक B.वागभट

C.सुश्रुत D.भेल

38. ज्ञान सम्पन्न वैद्य के लिए कौन सी परीक्षाएं हैं

A.प्रत्यक्ष B. प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश

C.प्रत्यक्ष अनुमान D.All

39. स्थिरत्वमापद्यते गर्भ किस माह मे होता है

A.पहले B.चौथे

C.दूसरे D.पॉचवे

40. Match

a-स्नायु	$-200
b-सिराए	%-900
c-धमनी	&-400
d-पेशियॉ	@-700

A. a-&,b-$,c-@,d-% B. a-@,b-&,c-$,d-%

C. a-&,b-@,c-$,d-% D. a-%,b-@,c-$,d-&

41. प्राकृत प्रसव मे गर्भ की स्थिति क्या होती है

A.उर्ध्वशिरा B.अधोमुख

C.पृष्ठाभिमुख D. अवाक्शिरा होकर

42. सिरा और धमनियों के सूक्ष्म मुखाग्र कितने होते है

A.29656 B.29956

C.29696 D.29996

43.किस त्वचा के कट जाने पर मनुष्य अन्धकार मे प्रविष्ट हुआ अनुभव करता है

A.5वी B.6वी
C.4थी D.7वी

44. Match

a-हृदय	$-भारद्वाज
b-नाभि	%-कांकायन
c-शिर	&-जनक
d-इन्द्रियाँ	@-पाराशर

A. a-&,b-$,c-@,d-% B. a-@,b-&,c-$,d-%
C. a-&,b-@,c-$,d-% D. a-%,b-@,c-$,d-&

45.शरीरविचय अध्याय में किस विषय पर विचार करने के लिए सम्भाषा परिषद का आयोजन किया गया

A.रस संख्या B. पुरुष एवं रोग की उत्पति
C.आयुर्वेदावतरण D. गर्भ में प्रथम अंग उत्पति

46.'तत्र शरीरं नाम चेतनाधिष्ठानभूतं पन्चमहाभूतविकार समुदायात्मकं समयोगवाहि' – संदर्भ

A.च.शा.3 B. च.शा.4
C. च.शा.6 D. च.शा.5

47. मोहेच्छाद्वेषकर्ममूला ....

A.करण B. प्रवृति
C.निवृति D. प्रकृति

48. सिरा कौन सा भाव है

A.मातृज B.पितृज
C.रसज D.सत्वज

49.किस विकृति मे दुष्ट वात गर्भाशयस्थ बालक के शुक्राशय के द्वार को विघटित कर देता है

A.द्विरेता B.इर्ष्यारति
C.पवनेन्द्रिय D.संस्कारवाही

50. शैत्यादल्पक्षुत्तृष्णासंतापस्वेददोषाः किसका लक्षण है

A. वात प्रकृति B. पित प्रकृति

C. कफ प्रकृति D. सभी

51. श्रुतग्राहिणोऽल्पस्मृतयश्च किसका लक्षण है

A. वात प्रकृति B. पित प्रकृति

C. कफ प्रकृति D. सभी .

52. स्थूलदीर्घवृतसन्ध्यश्च किस सार का लक्षण है

A. अस्थिसार B. मज्जासार

C. शुक्रसार D. सभी

53................. व्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां

A.शोकं B.निदानं

C.उपशय D. गूढलिंगं

54. किसको 'औपपादुक' कहा गया है

A.आत्मा B.काल

C. मन D.दिशा

55. आरोग्य कौन सा भाव है

A. आत्मज B. सत्वज

C. सात्म्यज D. रसज

56. जनपदोध्वंस की चिकित्सा है

A. पंचकर्म B. रसायन

C. सदवृत पालन D.सभी

57. नित्यगः तु.........................

A.ऋतुसात्म्यापेक्षः B. विकारमपेक्षते

C. अविकारमपेक्षते D.none

58. ज्ञानबुद्धिप्रदीपेन यो नाविशति तत्वविद्। आतुरस्यान्तरात्मानं न स ...।।

A. च.वि.4 B. च.वि 6

C. च.वि 8 D. च.वि 2

59.शास्त्र ज्ञान के उपाय हैं

A.2 B.3

C.6 D.4

60. अभ्युपगम किसका भेद है–

A.शब्द B. सिद्धान्त

C. हेतु D. अहेतु

61.न्याय दर्शन में हेत्वाभास कितने प्रकार का होता ह–

A.2 B.3

C.4 D.5

62. उपायाभिलुप्त चिकित्सा है–

A. दैवव्यपाश्रय, B.द्रव्यभूत

C. अद्रव्यभूत D.none

63.क्षीरपूर्ण लोचन for

A. सत्व सार पुरुष B. शुक्र सार पुरुष

C. मज्जा सार पुरुष D. अस्थि सार पुरुष

64. वातकफज रोगों में अनुवासनार्थ द्रव्य श्रेष्ठ है–

A. वसा, B. मज्जा

C. तैल D. घृत

65. काश्यप ने कितने कोष्ठांग माने हैं।

A.12 B.15

C.16 D.13

66. विद्रधि का स्थान कौन सी त्वचा है

A. तीसरी B. छठी

C. चौथी D. पांचवी

67.'शुक्रशोणितजीवसंयोगे तु खलु कुक्षिगते .... संज्ञा भवति

A.शरीर B.गर्भ

C.मन D.हृदय

68.आत्मा किससे युक्त होने पर सभी कर्मों का कारण होता है

A.वायु
B. करण
C.काल
D. प्रकृति

69.काश्यप ने 8 वां सात्विक काय कौन माना है

A.याम्य
B.पशुपति
C.ऐन्द्र
D. प्रजापत्यसत्व

70. भुक्तवा च स्वपतां दिवा से किस स्रोतस की दुष्टि होती है

A.रसवह
B.रक्तवह
C.मांसवह
D.मेदवह

71.ज्वर की चिकित्सा किस स्रोतस की दुष्टि मे करते है

A.रसवह
B.रक्तवह
C.स्वेदवह
D.मेदवह

72.प्रतिभान क्या है

A. जल्पक के दोष
B. जल्पक के गुण
C. शास्त्र के गुण
D. शास्त्र के दोष

73. असिद्ध किसका भेद है

A.हेतु
B.हेत्वाभास
C.छल
D.अहेतु

74. मनोबुद्धिरिन्द्रियशरीरतुष्टि किसका लक्षण है

A.कार्य
B.कार्ययोनि
C.कार्यफल
D.कर्म

75. प्रकृतिता किसका गुण है

A.औषधि
B.वैद्य
C.रोगी
D.परिचारक

76. आहारसौष्ठव क्या है

A.शरीर वृद्धिकर भाव
B. बल वृद्धिकर भाव
C. आहार परिणामकर भाव
D. All